

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 24.03.2021

**थाना खुदागंज पुलिस को कार्यवाही के दौरान मिली बड़ी कामयाबी,
60 लाख रुपये अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत की 750 ग्राम फाईन क्वालिटी अफीम सहित
मादक पदार्थ तस्क़र देवेन्द्र को किया गिरफ्तार ।**

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार में श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के नेतृत्व में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे आपरेशन पाताल के दौरान थाना खुदागंज को बड़ी सफलता मिली ।

इसी क्रम मे दिनांक 23.03.21 की शाम को थाना खुदागंज द्वारा मुखबिर की सूचना पर चिरचिरा पुलिया के पास अभियुक्त देवेन्द्र को 750 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के पास से 750 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे अनुमानित कीमत 60 लाख रुपये है । अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना खुदागंज पर मु0अ0स0 80/21 अन्तर्गत धारा 8/22 NDPS ACT का पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार किये गये अभिगण का विवरण:-

1. देवेन्द्र पुत्र सत्यवीर नि0 सतेती थाना बिल्सी जनपद बदायूँ

बरामदगी का विवरण-

- 1-750 ग्राम अफीम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 60 लाख रुपये है ।)

कार्यक्षेत्र व पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त से पूछताछ पर बताया गया कि बिल्सी थानाक्षेत्र के किसानो के यहां से अफीम चोरी से खरीद कर अपने मौसा अवनेश के द्वारा तैयार की गयी अफीम को फरीदपुर, बीसलपुर आदि जगहों पर सप्लाई करता हूँ । आज बीसलपुर देने जा रहा था कि आपके द्वारा पकड लिया गया । पूछताछ के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 80/21 धारा 8/22 NDPS ACT

*** पुलिस टीम का विवरण:-***

- 1-उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना खुदागंज शाह0
- 2-कां0 दीपक पवार थाना खुदागंज शाह0
- 3-कां0 अंकित तोमर थाना खुदागंज शाह0
- 4-कां0 वीरेन्द्र थाना खुदागंज शाह0